





JFL/NSE-BSE/2021-22/33

July 21, 2021

BSE Ltd.

P.J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400001

Scrip Code: 533155

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai – 400051

**Symbol: JUBLFOOD** 

#### Sub: Submission of copies of Newspaper advertisements

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today i.e. July 21, 2021 in Mint (English) & Rashtriya Sahara (Hindi) with respect to Communication made to Shareholders for payment of dividend and deduction of tax at source.

The copies of newspaper advertisements are also being disseminated on the Company's website at <a href="https://www.jubilantfoodworks.com">www.jubilantfoodworks.com</a>.

This is for your information and records.

Thanking You,
For Jubilant FoodWorks Limited

Mona Aggarwal Company Secretary and Compliance Officer

Investor E-mail id: <a href="mailto:investor@jublfood.com">investor@jublfood.com</a>

Encl: A/a

#### **A Jubilant Bhartia Company**



**Rebel Foods plans** 

overseas expansion



## Anand Rathi Wealth files papers with Sebi for IPO

Ravindra Sonavane ravindra.s@livemint.com

nand Rathi Wealth Ltd on Tuesday filed a draft red herring prospectus (DRHP) with the Securities Exchange Board of India (Sebi) for an initial public offering (IPO). The IPO will comprise of an offer for sale of about 12 million shares by the company's promoters and existing share-

This will consist of an issue of 9.29 million shares by Anand Rathi Financial Services Ltd (ARFSL), up to 375,000 shares each by Anand Rathi, Pradeep Gupta, Amit Rathi, Priti Gupta, Supriya Rathi, Rawal Family Trust, Feroze Azeez and up to 90,000 shares by Jugal Mantri.

As of March 2021, Anand Rathi held a 12.85% stake in the firm, while Pradeep Gupta owned 5.48%. ARFSL held a 43.12% stake in the company.

Equirus Capital Pvt. Ltd, BNP Paribas, IIFL Securities and Anand Rathi are the bookrunning lead managers to the issue. The proceeds from the share sale will be received by the selling shareholders, and the company will not receive any of the proceeds.

Anand Rathi Wealth is one of the leading non-bank wealth solutions firms in India and has also been ranked among the top three non-bank mutual fund distributors in India by gross commission earned in the fiscal year 2019-20.

The firm provides services primarily through its flagship private wealth vertical where it manages ₹26,058 crore in assets under management (AUM) as on March 2021. The private wealth vertical caters to 6.109 active client families

# Rising travel demand makes hospitality startups a hot pick

The demand recovery curve for the hospitality sector has become stronger after the 2nd wave

saumya.t@livemint.com **NEW DELHI** 

ospitality startups across both budget and luxury segments have garnered the interest of investors who are betting big on the post-pandemic trend of staycations and workcations. This comes against the backdrop of branded properties becoming the go-to choice for travellers, driven by factors such people continuing to work from home.

Backpacker hostel brand GoStops, which targets 18- to-35-year-olds looking for affordable accommodation, raised \$1 million in July in pre-Series A round led by IAN and Yuj, the family office of Xander Group founder Sid Yog. Bengaluru-based budget hotel chain Treebo Hotels raised \$16 million in June in Series Dround led by hospitality group Accor.

Demand recovery for the hospitality sector has strengthened after the lockdowns imposed by several states amid the second wave of covid-19 infections, GoStops founder Pankaj Parwanda

The world has learned how to deal with covid with a ready playbook that states people tend to travel when the positivity rate is low and stay home when it is high, according to him. This trend is driven by the Gen Z and millennials, who are more mobile than others.

The luxury segment is, on its part, witnessing pent-up travel demand. "Players in this segment are witnessing investor interest as there is immense pent-up demand. As the real estate supply is depressed, it is the best time for any hospitality company to acquire the supply and expand its presence across the country," Parwanda said.



The Gen Z and millennials are driving the uptick in travel demand.

GoStops, which operates about 20 properties, aims to add 40 more across leisure destinations such as Goa, Mukteshwar, Nainital, Dehradun, Mysore, Lonavala, Matheran, and Panchgani in 12 months

but by July our occupancy was 25%

higher than the pre-covid levels, which

also shows that the gestation period of

recovery is declining. At GoStops, there

is clear 3X jump in demand from June

to July," Parwanda said.

 $The investment \, by \, Accor \, in \, Treebo$ is part of its broader partnership under which the latter said it will deploy its cloud-based, comprehensive hotel management software, Hotel Super-

**VISTA** Rooms

raised ₹10 crore in

funding led by DSG

Consumer Partners

## **GROWING INTEREST**

**INVESTORS** are betting big on the trend of staycations

**GOSTOPS**, which targets 18- to 35year-olds looking for an affordable stay, raised \$1 mn in July

June in Series D round led by hospitality "Our demand bottomed out in May,

**TREEBO** Hotels

hero, at various Accor hotels across the

Treebo, which has 600 hotels in India, is betting big on Hotel Superhero. The software, which helps hotels in property management, point of sale.

and other solutions for effective operations, was relaunched in July 2020.

"We will deploy a considerable portion of the funds raised in building and rolling our Hotel Superhero. We also plan to utilize these funds to see our hotels business turn profitable in the next year, subject to there not being another disastrous third wave of covid. We were within striking distance of Ebitda (earnings before interest, taxes. depreciation and amortization) profitability when the pandemic hit, but we hope to be profitable by June 2022," said Sidharth Gupta, co-founder of Treebo Hotels.

Mumbai-based vacation home rental chain Vista Rooms raised ₹10 crore in funding led by DSG Consumer Partners in January. The company is investing in team building by hiring talent from top hospitality players, activating partners in newer regions, adding 20 properties on a monthly basis, and enhancing the technology product to offer seamless on-boarding for partners and guests

'We are receiving 60% bookings from the locations that are now open for operations. For us, June and July 2021 are the best months in terms of revenue generation and business compared to other months in 2021. We have even done record sales in these

two months. We also aim to build a presence encompassing macro markets in the next four to five months," said Pranav Maheshwari, co-founder. Vista Rooms. Guest preferences have changed

significantly during the pandemic. People are preferring to stay at secluded low density properties and are willing to go off the beaten track, noted Jaideep Dang, managing director, hotels and hospitality group, South Asia, JLL, a real estate consult-

ancy firm. Luxury rentals, which can be

booked online, are also picking up.

ebel Foods Pvt. Ltd, which manages a network of cloud kitchen brands such as Faasos, Behrouz Biryani, Mandarin Oak and The Good Bowl, is set to expand its footprint in international markets such as Thailand, Hong Kong and the Philippines, with its own brands and through partnerships with local restaurants, said Ankush Grover, co-founder, Rebel Foods.

suneera.t@livemint.com

**NEW DELHI** 

The company, which operates 500 internet restaurants outside India, is planning to add 250-300 locations across Southeast Asia, West Asia and the UK. Rebel Foods operates multiple restaurant brands from under one roof.

The Sequoia- and Go-Ventures-backed firm had foraved into overseas markets in 2019 with the launch of its services in the UAE and Indonesia. It had set up a joint venture with Indonesian multi-service app operator Gojek to launch 40 cloud kitchens in Indonesia which run over 300 internet restaurant brands, including Oven Story and Faasos

Since December, it has been on an expansion spree, adding locations across internationa markets, with gourmet brands Faasos and Behrouz Birvani. besides floating a burger and Japanese cuisine brand to service the demand for local cuisines in the markets.

Its international expansion has been based on the brandas-a-service model, wherein it offers its existing brands, the know-how, dish selection and design of a menu, besides marketing to local restaurants.

"In 2020, we entered Singapore, Malaysia, Bangladesh,



Ankush Grover, co-founder, Rebel Foods.

and the UK. We offer brand as a service, which is similar to SaaS (software as a service). We have 50 partners. We plan to go much faster because the on-boarding is a simple plugand-play model," Grover said.

food delivery has come on the back of muted demand for dine-ins amid the intermittent waves of covid-19 infections "Therefore, future interna-

Growth in online orders for

tional expansion will largely be on the back of the brand-as-aservice model since it is a low capital model and is working very well for us," he added.

Rebel Foods offers its own bouquet of brands to restaurants having the infrastructure to set up a kitchen. It offers backend tech and brand-marketing activities for a royalty fee. This model is capex light as it does not have to invest in building its own kitchens.

"Restaurants are facing a lot of pressure. They see that partnering with Rebel Foods with its tech support, and the power of the brand, they can turn in more profits from their existing premises," Grover added.

## Apple delays office return till October as covid-19 cases see resurgence due to delta

feedback@livemint.com

pple Inc. is pushing

back its return to office deadline by at least a month to October at the earliest, responding to a resurgence of covid variants across many countries, people familiar with the matter said. The iPhone maker becomes

one of the first US tech giants to delay plans for a return to normality as covid-19 persists around the world and cases involving a highly transmissible variant increase. Apple will give its employees at least a month's warning before mandating a return to offices, the people said, asking not to be identified discussing internal

Chief executive officer Tim Cook said in June that employees should begin returning to offices in early September for at



Apple CEO Tim Cook said that employees should begin returning to offices in early September for at least three days a week.

internal memo, Cook cited the availability of vaccinations and declining infection rates. Some employees of the Cupertino, California-based technology giant have worked from Apple offices on certain days throughout the pandemic.

Yet even with half the US

**Growth** is

least three days a week. In an

vaccinated, covid-19 continues to kill people faster than guns, car crashes and influenza combined, according to a Bloom-

berg review of mortality data. After 10 weeks of global declines in covid-19 deaths, the highly transmissible delta variant is driving a new uptick. In the US, health officials have

not just adopting new

technologies. It's also

Growth is...On.

adapting to new realities.

warned that a similar reversal may be underway: Daily cases have doubled from a low point last month, and hospitalizations are rising again.

Corporations across the globe are grappling with how to adjust to shifting work demands in the post-covid era. Apple's decision comes as its own employees criticized the September deadline as too early.

Even before covid, the company had grappled with a potential loss of talent as workers-despite being relatively high earners-complain they can barely afford the extraordinary cost of living in the San Francisco Bay Area.

Just a few years after completing the multibillion-dollar Apple Park headquarters in Cupertino, California, Apple is now ramping up efforts to decentralize out of Silicon Val-

Think Ahead.

Think Growth.

#### OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (WB)-II DELHIJAL BOARD ROOM NO. 29, B-BUILDING, VARUNALAYA, JHANDEWALAN, NEW DELHI-110005 "STOP CORONA, Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene" PRESS NOTICE TENDER NO. 01/2021-22 Name of Item Last date/time of receipt **Estimated Cost** of tender through -procurement solution DBO Basis Rejuvenation of Tihar Lake, Tihar Village, Delhi on DBO basis under EE (WB)-II upto 3.00 PM <u>Tender ID: 2021\_DJB</u>\_206015\_1 Can view this particular statement in detail https://govtprocurement.delhi.gov.in ISSUED BY P.R.O. (WATER) (Ramesh Kumar Gupta) **EXECUTIVE ENGINEER (WB)-II** Advt. No. J.S.V. 2021 (2021-22)



## ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ॉट नं. 1, नॉलेज पार्क−IV, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर–201308, उ०प्र

पत्नांक: जी०एम०/( अभियन्त्रण)/2021/254ए

<u>ई-निविदा आमंत्रण सूचना</u>

महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा की ओर से ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- जी०एम० / ( अभियन्त्रण) / 2021 / 254 दिनांक 16/07/2021 के माध्यम से उल्लेखित क्रम संख्या-01 से 12 पर अकिंत कार्य की ई-निविदाये आमन्त्रित जाती है। समस्त नियम व शर्ते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.in पर ई-निविदा लिंक एवं ई-पोर्टल https://etender.up.nic.in प उपलब्ध है किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाईटें देखते रहें।

क्र.सं.	कार्य का नाम / वर्क सर्किल	अनुमानित लागत	
1	सैक्टर अल्फा-1, 2 बीटा- 1,2 गामा-1.2 एवं डेल्टा-1,2,3 में मिसिगं पोल एवं मिसिगं फिटिगं का कार्य। (वर्क सर्किल ई०एण्ड०एम०-2)	रू० 57.17 लाख	
2.	जैतपुर कॉमर्शियल सैक्टर आबादी (एक्स.) के चारों ओर 105 मी० एवं 60 मी० चौड़ी सड़को पर पेड़, पोधो एवं लॉन लगाने एवं तीन वर्ष तक अनुरक्षण कार्य । (वर्क सर्किल उद्यान)	रू० 58.42 लाख	
3.	ग्रेटर नोएडा कार्यालय भवन में एल0ई0डी रूफ टॉप साइनेज लगाने एवं अनुरक्षरण का कार्य । (वर्क सर्किल- 5 )	रू० 61.36 लाख	
4.	सैक्टर ईकोटेक-1 में 24 मी० चौड़ी आन्तरिक सड़क का रिसरफेसिंग का कार्य । (वर्क सर्किल-5)	रू० 112.26 लाख	
5.	ग्राम घोड़ी बछेड़ा के पॉकेट-ई एवं एफ के 4%, 6% 10% आबादी भूखण्डों का विकास कार्य। (वर्क सर्किल 6)	रू० 122.34 लाख	
6.	ग्राम सुथियाना में आर०सी०सी० रोड़ एवं ड्रेन का अवशेष विकास कार्य।	रू० 140.89 लाख	
7.	ग्राम रिठौरी में 6% आबादी भूखण्डों का अवशेष आन्तरिक विकास कार्य पार्ट-बी । (वर्क सर्किल-7)	रू० 143.24 लाख	
8.	एच्छेर टी-प्वाइट से 130 मी० चौड़ी रोड़ तक एवं आई.टी.बी.पी. रोटरी से गेल रोटरी तक 60 मी० चौड़ी रोड़ (मैन केरेजवे एवं सर्विस रोड़) का सुदृढीकरण।(वर्क सर्किल 5)	रू० 290.89 लाख	
9.	सैक्टर ईटा-1 की आन्तरिक सड़क पर रिसरफेसिंग का कार्य। (वर्कसर्किल-5)	रू० 327.67 लाख	
10.	एस०के० रोड़ (टी-प्वांइट) से डेल्टा-1 रोटरी (लेवर चौक) तक एवं रियान रोटरी से गोल्फ रोटरी तक एवं 60 मी0 चौड़ी रोड़ (मैन केरेजवे एवं सर्विस रोड़) का सुदृढीकरण (वर्क सर्किल-5)	रू० 495.16 लाख	
11.	जगतफार्म रोटरी से गामा-2 रोटरी (ओमैक्स सी.पी.) रोटरी एवं अथॉरिटी रोटरी से रियान रोटरी तक 60 मी० चौड़ी रोड़ (मैन करेजवे एवं सर्विस रोड़) का सुदृढीकरण (वर्क सर्किल-5)	रू० 409.81 लाख	
12.	ग्राम हजरतपुर 6% आबादी भुखण्ड़ों का विकास कार्य (वर्क सर्किल 6)	रू० 627.04 लाख	

(ब) क्रम सं० 08 से 12 तक दिनांक - 23.07.2021 से 05.08.2021 को 5:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 09.08.2021 11:00 बजे खोली जाएगी।

Follow Us On 

(f) 

(p) 

(OfficialGNIDA)

JUBILANT FOODWORKS LIMITED

CIN NO. L74899UP1995PLC043677 Regd. Office: Plot No. 1A, Sector – 16A, Noida – 201301 (U.P.) Contact No: +91-120-4090500, Fax No: +91-120-4090599 E-mail: investor@iublfood.com Website: www.jubilantfoodworks.com

#### **COMMUNICATION TO SHAREHOLDERS FOR PAYMENT OF DIVIDEND AND DEDUCTION OF TAX AT SOURCE**

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on June 15, 2021 ecommended payment of dividend of INR 6.00/- per equity share for the financial year ended March 31, 2021, subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting. The dividend, if approved by the share holders, will be paid to shareholders holding equity shares of the Compa either in electronic or in physical form as on the record date, i.e., August 9, 2021 for determining eligibility of shareholders to receive the dividend

In terms of the provisions of the Income-tax Act. 1961. ("the IT Act"), dividend paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020 is taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore, be required to deduct tax at source at the prescribed rates at the time of payment of dividend. The deduction of tax at source will be based on the residential status and classification of shareholders in accordance with the provisions of the IT ACT. The shareholders are therefore, requested to upload requisite tax related documents/declarations such as Form 15G/15H, documents under section 196, 197A, FPI Registration Certificate, Tax Residency Certificate, Lower Tax certificate etc. on the link https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before August 9, 2021 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rate applicable.

In case where copy of documents (such as PAN card, Registration certificate etc.) is provided, the copy should be self-attested by the Shareholder or its

The shareholders may visit the website of the Company, for details of prescribed rates for deduction of tax at source and the documents/ declarations required to be submitted by the shareholders, at https://www.jubilantfoodworks.com/investors/shareholder-information/dividend. Shareholders please note that all the Tax related documents should be uploaded through above Link Intime Portali.e. <a href="https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-">https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-</a> of-form-15g-15h.html only on or before August 9, 2021. Any documents, communication in relation to tax rate determination/deduction received pos August 9, 2021 shall not be considered/entertained.

For Jubilant FoodWorks Limited

Date: July 20, 2021 (Mona Aggarwal)



नर्ड दिल्ली। बधवार ● 21 जलाई ● 2021

स्महारा= | www.rashtriyasahara.com

#### संक्षिप्त खबरें

शनिवार को खुले रहेंगे संपत्तिकर कार्यालय **नई दिल्ली।** महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि सम्पत्ति कर दाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तरी ल्ली नगर निगम के सभी संपत्तिकर कार्यालय 31 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हर शनिवार खुले रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2021 22 के लिए समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15% की छूट के साथ संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम 31 जुलाई कर दी है। उन्होंने बताया कि आवासी संपत्ति करदाता 15 फीसद छूट के

अतिरिक्त स्व-घोषणा पत्र प्रदान करके अतिरिक्त 3 फीसद छूट का लाभ उठा

सकता है। मृत पर्यावरण सहायकों के आश्रितों को दिए नियुक्ति पत्र पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मंगलवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय में शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के मृत 49 पर्यावरण सहायकों के आश्रितों को करूगामलक आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। दैनिक वेतन भोगी आधार पर उन्हें यह नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर स्थाई समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पंवार नेता सदन सत्यपाल सिंह तथा स्थाई समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा भी मौजूद थे। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने का कि पर्वी दिल्ली नगर निगम विषम वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद अपने मृत पर्यावरण सहायकों के आश्रितों के हिते के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सहायक निगम के कामकाज की रीढ़ हैं और पूर्वी निगम द्वारा उनकी मांगों को नियमानसार परा करने के ईमानदार प्रयत्न किए जाएंगे। महापौर ने बताया कि इन 49 लोगों में से दो नियक्तियां उन लोगों की की गई हैं ने के परिजन कोराना के कारण मृत्यु



## 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें: सत्येंद्र

दिल्ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ राजधानी में 24 घंटे

पानी की आपूर्ति परियोजना को लेकर समीक्षा

जल मंत्री कहा कि जल विभाग शहर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने पानी की वर्वादी रोकने और विभाग में सभी स्तरों पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया। जैन ने शहर के जल निकायों और एसटीपी पर किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की और काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों के साथ पंपिंग से लेकर कनेक्शन और आपूर्ति तक हर चेकप्वांइट पर शामिल तकनीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लाभ के लिए इस योजना को जल्द से ज

लागू किया जाना चाहिए और सभी तकनीकी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से दूर किया जाना चाहिए। जल मंत्री ने कहा कि यह योजना । चाल्ए। जल चना चनल्या । धानी में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। जल मंत्री ने अधिव



🛮 जल मंत्री ने जल होई अधिकारियों के साथ की समीक्षा

को सभी स्तरों पर जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी परियोजनाएं तय समय से पहले पूरी हों। सत्येंद्र जैन ने सभी जल निकायों के रखरखाव के साथ-साथ दिल्ली के बड़े नालों में चल रही सफाई की प्रगति का भी जायजा लिया

## ऊर्जा मंत्री से डिबेट की चुनौती

नर्ड दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने गोवा के ऊर्जा मंत्री निलेश कैबराल द्वारा बिजली के मुद्दे पर खुली बहस की दी गई चुनौती को नर खुला जरूस का जा पर चुनाता का स्वीकार कर ली है। वह 26 जुलाई को गोवा जाएंगे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में सरकार बनने पर वहां के निवासियों को 24 घंटे बिजली महैया कराने का वादा किया है के जरीवाल के इस ऐलान के बाद ही गोवा के ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन को 24 घंटे बिजली के मुद्दे पर डिबेट करने की चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी की मुफ्त और 24 घंटे बिजली की घोषणा पर आमने-सामने बहस की चुनौती स्वीकार करता हूं।

उपमुख्यमंत्री ने

अभिभावकों से जाना

बच्चों का हाल

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** दिल्ली सरकार

के स्कूलों में आयोजित किए जा रहे स्पेशल

#### मंगलवार को भी भीगी दिल्ली

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन अच्छी बारिश हुई। नह प्रस्पत (पुसर्पनात्र प्राचनात्र प्रतिकार करावात्र को प्राचनात्र कार्याच्या करावे हैं। उच्छा जासरा हुन इसके कारणा वारमान सामान्य से तीन डिग्री सीत्स्यस्य नीचे चला गावा । सीस्मा विभाग ने बुधवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31,9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस विकाई किया गया। शाम साहे पांच बचे तक 6.3

सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे लूढ़का तापमान

बुधवार को भी हल्की बारिश की संभावना

मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा नजफगढ़ इलाके में 79.5 मिलीमीटर बारिश हुई। पूर्वी दिल्ली में तो दिन में हल्की बारिश हुई, लेकिन शाम छह बजे के आसपास मसलाधार बारिश हुई। बारिश से पहले छह वर्ज के आसपास मूलरावाद चारित हुइ। चारित के पहरा आसमान में काले वादल छा गए और देखते देखते अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे रात हो गई हो। इसके बाद वादलों ने बरसना शुरू किया तो जमकर बरसे। पालम इलाके में 24

बस्सना शुरू । अवसा वा जमकर क्स्स । पाला इलाक 12 24 घंटे के दौरान 95 मिलाने प्रकार है। अन्य इलाक के दौरान 95 मिलानीय कारिश हुईं । अने कि नेता में ते प्रकार के जिस में ते प्रकार के जिस में ते प्रकार के अपने पूर्वानामां में प्रचारा को अधिकतम तारामा 34 और न्यूनाम 25 डिग्री मेरिस्स के आस्त्रास को नहीं और कुछ एक इलाकों में ते का ती कही हुए कहनी बारिश को संभावना जवाई है। उच्छ बारिश के दौरान दक्षिणी दिल्ली नागर निगम के में 12 जगह पेड़ गिरने, 8 जगह जलस्वरा होने और 2 जगह स्वानों के हिस्से गिरने की शिकायों दर्ज की गई है। शाम करीब साढ़े सात बजे तक दक्षिणी निगम क्षेत्र से उक्त शिकायतें दर्ज की गई।

#### किसानों के साथ पुलिस की तीसरी बैठक बेनतीजा

नई दिल्ली (एसएनवी)। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद घेराव की मांग पर अड़े किसानों का दिल्ली पुलिस के बीच की तीसरी बैठक बेनतीजा हो गई है। किसान प्रदर्शन पर दा हैं, जबकि पुलिस इसकी अनुमति नही दे रही है। पलिस का कहना है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों ने लालकिला में पहुंचकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस घटना के ताइफाइ जार हागामा कथा। इस घटना क बाद से पुलिस को किराना संगठनों पर विश्वास नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले भी किसान नेताओं और पुलिस के बीच वो बार बैठक हो चुकी है जिक्कन घरना-प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिल पाई है। मंगलबार को अलीपुर के एक फार्महाउस में किसान नेताओं और पुलिस के आलाधिकारियों की बैठक हुई, लेकिन यह बेनतीजा रही।

### स्पा सेंटरों को खोलने पर फैसला जल्द : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार ने स्पा एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट से कहा कि वह स्पा सेंटरों को करते हुए दिया है। संगठन ने सरकार के 26 खोलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है और उस पर जल्द

और सैलून को फैसला ले लिया जाएगा। उसके लिए समय प्रदान किया जाए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सरकार को समय खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन स्पा सेंटरों को नहीं

राजधानी में स्कूलों को खोलने की मांग

प्रदान कर दिया और सुनवाई 27 जुलाई के लिए स्थिगित कर दी। रवैया अपनाया याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि स्पा खोलने की इज सेंटरों से कई लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। सरकार की ओर से यह बात अधिवक्ता नौशाद अहमूद खान ने कही। न्यायमूर्ति ने यह समय स्पा सेंटरों के संगठन दिल्ली वैलनेस

जून के आदेश को चुनौती दी है जिसमें जिम, योगा सेंटर और सैलून को खोलने का पीटीएम के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री मनीष् सिसोदिया ने स्कूलों का दौरा किया और वह आदेश दिया गया है, लेकिन स्पा सेंटरों को नहीं। एसोसिएशन ने कहा है कि

ठा नहां उसके साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जब सैलून को खोलने की इजाजत दे दी गई तो उसे भी खोलने की इजाजत दी जाए. क्योंकि इससे कई लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। उसमें काम अपनी रोटी के लिए तरस रहे हैं।

बच्चों की पढ़ाई के विषय में बातचीत की। उपम् मंगलवार उपमुख्यमंत्री

अभिभावकों से मिलकर

जीजीएसएसएस, न्यू कोंडली, एसकेवी ईस्ट विनोद नगर और एसकेवी मंडावली का दौरा किया। बड़ी संख्या में अभिभावक स्पेशल पीटीएम में शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय बाद आज अभिभावकों से ाक तथा समय जाय जाजा जानावकात स्मितने और जानने का मौका मिला कि ऑतलाइन क्लासेज में क्या-क्या चुनौतियां आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण स्कूलों में फिजिकल क्लासेज न होने से बच्चों स्कृता मां आजकरा करात्वाचा न हान सं बच्चा की शिक्षा प्रभावित हुई है। पीटीएम छात्रों की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। कोरोना काल में बच्चों को अवसाद और तनाव से दूर रखने के लिए शिक्षक हैप्पीनेस करिकुलम के तहत ऑनलाइन क्लास के माध्यम से माइंडफुलनेस का अभ्यास करवा रहे हैं। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के सदस्य बच्चों के अभिभावकों से जुड़े हुए हैं और क्यारें न

जुड़े हुए है और बच्चों की पढ़ाई और रुरतों को पुरा करने का काम कर रहे है।

ग्राम पंचायत सचिव

. मण्डौला

लोनी गाजियाबाद

कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डौला लोनी गाजियाबाद

पत्रांक : 02/पंचायत/पंचम राज्य वित्त /15 वां वित्त/ निविदा/2021-22 दिनांक : 21.07.2021 संशोधित निविदा सूचना

वित्त/15 वां वित्त/ निविदा /2021-22 दिनांक : 16.07.2021 दुवार

निविदा सूचना प्रकाशित कराई गई थी। उक्त निविदा दिनांक : 23.07.2021

खोली जानी थी। इस निविदा सूचना में 12 कार्यों के लिए निविदा मांगी की

गई थी। उक्त निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डौला के पत्र संख्या 1/पंचायत /पंचम राज्य

## रेहडी-पटरी ऋण स्कीम का रजिस्टेशन कैम्प

नई दिल्ली (एसएनबी)। ब्रहमपुरी वार्ड में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से रेहड़ी पटरी वाले कामगारों के लिए रेहड़ी-पटरी ऋण स्कीम के तहत एक कैम्प का आयोजन छत वाले मंदिर की गली जगजीत नगर में किया गया।

जिसमें काफी संख्या में रेहड़ी-पटरी वालों ने ऋण के वाबत रजिस्ट्रेशन

	र पर ब्रहमपुरी के निगम पाषंद राज कुमार बल्लन और चौंधरी और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।			
	उत्तर रेलवे			
	निविदा सूचना			
	हे ओर से वरि. मण्डल यांत्रिक अभियंता∕पॉवर, मण्डल रेल प्रबंघक , स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली — 110055, निम्नलिखित कार्य के लिए खुली हरते हैं।			
निविदा संख्या	221-S/4/2/W/RR/JHI-JHL(2020)/ML-4/Ret-III			
कार्य का नाम व कार्य स्थल	वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक जींद और जाखल के अधीन रिनेंग रूम जींद व जाखल में कपढ़ो जैसे चादर, तिकया कवर, रजाई कवर और ऊनी कम्बल की धुलाई हेतु करार अवधि से तीन वर्ष के लिये खुली ई निविदा।			
अनुमानित लागत	17,60,375/- रुपये तथा GST जैसा लागू होगा।			

35,200 / — रुपये (ये जमा राशी कंवल नेट बैंकिंग या भुगतान गेटवे कं द्वारा ही मान्य होगी, यह राशी एफडीआर या टीडीआर कं रूप में मान्य नहीं होगी रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2015/CR-I/CT/5/1 dated 31.08.2016 बयाना राशि

अवधि कार्य आरम्भ होने से तीन वर्ष (36 माह) निविदा प्रपत्र जम करने तथा खुलने की तिथि व समय दिनांक 18.08.2021 11 बजे तक तथा खुलने का समय दिनांक 18.08.2021, 11 बजे निविदा प्रपत्र डार लोड करने हेतु इन्टरनेट साईट

यदि हिंदी व अंग्रेजी के नोटिस में कोई विरोधामास है, तो अंग्रेजी का नोटिस ही मान

ग ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

## जुबिछैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

WT सीआईएन: L74899UP1995PLC043677 पंजीकृत कार्यात्याः जोट 1ए संस्टर 1सए. नोएस-201301. (उ.प्र.) फोन: +91-120-4090500, फेलस: +91-120-4090599 ।इट: www.jubilantfoodworks.com, इंगेल: investor@jubifood.cc

<u>शेयरघारकों को लाभांश के भुगतान और स्रोत पर कर कटौती की सूचना</u> कम्पनी के निर्देशक मंडल में, दिनांक 15 जून, 2021 को आयोजित इसकी बैठक 13 मार्च, 2021 को स्थापित इसकी बैठक 13 मार्च, 2021 को स्थापत वितीय वर्ष के तित्र भारतीय स्थाप्त किसी कर के अन्य स्थापत विताय के तित्र भारतीय स्थाप्त किसी कर के में दिख्याराओं अब अनुमोदान की सार्व के असिन देश मार्च अब्दुनीयोज्य की सार्व के असीन देशा (वामांस, वार्ष श्रेयकाराओं इस अनुमोदात किया गया तो उत्तका पुनाता कम्पनी के पान इवित्रण विकायात्यों की सार्व अपने किया आपना अस्तर के तित्र श्रेयकाराओं को किया आएता, वो लागी आपना अस्तर के तित्र श्रेयकारात्यों को किया आएता, वो लागी आपना अस्तर के तित्र श्रेयकारात्यों की वाहाता निर्धारण के तित्र श्रेयकारात्यों को विश्व आपता अस्तर के तित्र श्रेयकारात्या को तित्र श्रेयकारात्या को तित्र स्थापता करने किया निर्धारण के तित्र श्रेयकारात्या को तित्र श्रेयकारात्या की तित्र स्थापता करने तित्र श्रेयकारात्या को तित्र स्थापता किया में वित्र श्रेयकारात्य को तित्र स्थापता करने तित्र श्रेयकारात्या की त्राव्या क्षा क्षा स्थापता करने तित्र श्रेयकारात्या की त्राव्या क्षा स्थापता करने तित्र श्रेयकारात्या की व्यवस्था क्षा स्थापता स्थाप

202 का इन्हेल्युनिक या भांतिक कर ने सेरप्यायक होंगे। यह न्या अधिन्या १६६ (आबन-कर केविनयम्) के प्राव्याने के निकश्नों से कम्मी द्वारा दिनांक १ अर्थील, 2020 को अव्याव उत्तर्भ वाद शैरप्यायकों के हात्रां ने हात्रां ने प्राप्तान स्व तितिति किया माया स्वावांग्य कर ने अपने १ अपनी कम्मी के हात्रा पर कन् इन्होंगी, सामाध्य के भूगाता के स्पन्ता पर निर्धारित दरों पर, करनी होगी। जोत पर कर इन्होंगी, सामाध्य के भूगाता के स्पन्ता पर निर्धारित दरों पर, करनी होगी। जोत पर कर इन्होंगी, सामाध्य कर स्वार्थना के अनुसार सेरप्यायक की आसारीय विवादी और

बगोकरण कं आधार पर होगी।
कारायू वेशकारण के आधार पर होगी।
196, 197 के तहन दसकोच, एक्पीआई पंजीकरण प्रमाणव, टैक्स फीड़ेले विटिकेट,
196, 197 के तहन दसकोच, एक्पीआई पंजीकरण प्रमाणव, टैक्स फीड़ेले विटिकेट,
वेशकार टैक्स सर्टिकेट लिक <u>thisty-Newshiphinitime co. Informers/shiphinitime</u>
6 of this of the state of t

ग्रेयरधारक, स्रोत पर कर—कटौती हेतु निर्धारित दरों तथा शेयरधारकों द्वारा प्रस्तु केए जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों / घोषणाओं के विवरण के लिए वेबसाइव ://www.jubilantfoodworks.com/investors/shareholder-information/dividen शेयरधारक कृपया नोट करें कि कर—संबंधी सभी दस्तावेज उपरोक्त लिंकड़न टाड दवी वारत्याश्य कृष्या मा. करा क्र कर-पत्था प्रभा दशावण उपपादा (व्यवहार टाइस् परितंद पर नामारः <u>https://web.inkintime.co.in/primerse/submission-of-form</u> <u>15g-15h.html</u> के नायरम से 9 अगस्त, 2021 को अथवा पहले अपलोड किए जा बाहिएं। कर दर मिर्भाष्ण/ कटीही के संबंध में दिनांक 9 अगस्त, 2021 के परचात प्राप्ट किसी दस्तावेज/सूचना पर विचाद नहीं किया जाएगा/स्वीकार नहीं की जाएगी।

कृते जुनिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेर

### 10,580 पर कॉल कर खुद को करें तनाव मुक्त

नई दिल्ली (एसएनबी)। कोरोनो ने लोगों के मानिसक रवास्थ्य को प्रभावित विकास है। इसको देखते हुए सरकार ने युवा हेल्पलाइन नंबर 180011688 और 10580 जारी किया है। दिल्ली के सभी नागरिकों और विशोधकर रव्यूली और कोरिकों में पूर्वन वाले विचायों कोपने युवाई स्विधित तमा के साथ-मान्य पानानात्वक और मोनीवीनिक यूपी पर दिल्ली सरकार के इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर गाइडेस और काउंस्तिंग प्राप्त कर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री मनीप सिसोदिया ने कहा कि सभी नागरिक युवा हेल्पलाइन का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कोरोग महामारी के कारण तनाव में हो, कोरोगा अंक्रमाभ दे हें हुए हो, कोरोग के बाद बल्दाी वोजनेशी के सब्ब स्वार्थी बैठाने में असहन महसूस कर रहा हो, अपने करियर या भविष्य को लेकर चिंता में हो, घर पर बैठ औं त्वाहान पहाई करते और समय प्रवंधन में कठिनाई का सामना कर रहे हो, परीक्षा परिणाम के कारण तनाव में है, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु जानकारी लेना चाहते हो या उसको लेकर चिंता या तनावग्रस्त हो, मायूसी-अकेलापन महसूस कर रहे हों, बहत जल्दी क्रोधित हो जाते हों या इसी तरह की अन्य समस्याओं से जड़ा रहे हैं।

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में विद्यालय के संचालकों व अभिभावकों ने एक बार फिर विद्यालय खोलने की मांग की है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन का कहन है कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आने के बाद अभिभावकों में बच्चों को स्कूल खोलने के प्रति विश्वास बढ़ा है, क्योंकि डॉ. गुलेरिया का कहना है कि यदि संक्रमण रेट 5 प्रतिशत से कम है वहां विद्यालय खोल देने चाहिए। जैन ने बताया कि समाचार पत्र में खबर आने के बाद दिल्ली के अधिकतर स्कूल प्रबंधकों के ऊपर अभिभावकों ने दबाव बनाना शुरू के

रेट एक प्रतिशत से भी कम हो गया है तो ऐसे में सरकार को तुरंत स्कूलों को कुछ पाबंदियों के साथ खोल देना चाहिए। देश के कई राज्यों में स्कूलों को इस माह से खोला जा चुका है। अब लंबे समय तक तीसरी लहर के इंतजार में स्कूली बच्चों को स्कूल से दूर रखना बच्चों के हित में नहीं है जहां पिछले 17 महीने से बच्चे घर पर रहकर मोटापे का शिकार हो रहे हैं वही बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में आंखों की बीमारी के केस भी आनलाइन क्लांस लन म आखा का बामारा क कस भा बढ़ रहे हैं, बच्चे मानिसक रूप से चिड़िचड़े होते जा रहे हैं। जैन ने सरकार से मांग की है कि सरकार तुरंत स्कूल खोलने पर विचार करें जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है

## 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें, 44 नए केस

■ सहारा न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली शहर में कोरोना से संक्रमण दर तेजी से घट रही है, हालांकि 24 घंटे बाद मौत के मामले फिर बढ़ गए हैं। दिल्ली में 44 नए मामले सामने अप्र वर्ड़ गए हैं। प्रस्ता में 44 गए मानरा सामन आए। वहीं 37 मरीजों को छुट्टी दी गई, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। हालांकि संक्रमण दर अब 0.07 फीसद रह गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आर से मंगलवार का जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में अभी तक कुल 14, 35, 609 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 14, 10, 005 मरीज स्वस्थ हो गए, जबकि 25, 035 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर 1.74 फीसद है। विभाग के अनुसार दिल्ली में इस समय एक्टिव केस 569 हैं। कोविड केयर सेंटर में 9 और होम

रु। का।वड कथर सदर म 9 आर हॉम नोलेशन में 183 मरीज भर्ती हैं। **कोविड टेस्टिंग:** दिल्ली में कोरोना की


विज्ञपित

विद्यक्ति ।
शना रामराज जनगर मुनगर उत्तर प्रदेश पर पति , मु.अ.स. 223/2017 धारा 60/72 आवमारी अधि व 272/273 आईपीती में ।
अस्त्रपति अधि व 272/273 आईपीती में ।
अस्तरपति के प्रकृत कान स्वीम कर 1. D.L. 2C AP/1378 के वहत स्वामी मी. रिजयात 5/6 बारसी ही . S.1-2/A कालीक एस जोगा बढ़ेंद्र स्वास्तरी जांगीसमा मार ओखला सह रिल्ली के वाहत उत्तरपति की जांगीकरण बढ़िक्स कालीक पत्र काला कालिक हैं।

व्यक्ति उपरांतन को जानीकरण को कारपांतन है। जिल्ला मिजट्टेड क्यांलिन हैं। जिसके संबंध में व्यक्ति रहाणी के उपरोक्त पने परे एक क्षरण बताओं में डिट्स जारिल करने का उपरांतन क्यां च्यांति प्रचार स्थापी वर्तमान में उपरांतन को पर निवास नहीं कर रहा है। जिस कराण जातीकरण की कार्यवाही रामिक वर्ता रहा है। यदि उपरांतन व्यक्ति रामिक वर्ता एम मान्यपालन में उपरिक्तन नहीं होता है। तो इस प्रधान आभा कि तार रहा मिल्ला वर्ता पर मान्यपालन में उपरिक्तन नहीं होता है। तो इस रामिक

पर मा-व्यायनाव में उपस्थित तह ती तो हत वा सम्माज जाएगा कि ताहर तथामें को इस विकार में कुछ नहीं कहना हैं। और मा-व्यायालय द्वारा अनिमा कार्यवाही अमाल में लाई जावेंगी। जन जावन स्वामी उपयोज्ञ इस विद्वारी को पुकर विला मॉक्स्ट्रेट कार्यालय मुक्कर नगर में अग्रीम कार्यवाही अस्त में लावी जा सके। विला मॉक्स्ट्रेट उपनिस्थाल की द्वीरक कुमाल विला मॉक्स्ट्रेट उपनिस्थाल की द्वीरक कुमाल

जनपद मुजफ्फर नगर (उ.प्र. मो.नं. 838480515



63, 019 टेस्ट हुए जिसमें 0.07 फीसद लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मंगलवार को आरटी पीसीआर से 44, 368 और र्गाराधार का आरट पासाआर स 44, 566 आर रैपिड एंटीजन से 18, 651 टेस्ट हुए। दिल्ली में अभी तक 22919131 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में घटते मामलों के साथ हॉटस्पॉट की संख्या घटकर 406

संक्रमण दर अब पहुंची 0.07 फीसद मंगलवार को 63, 019 टेस्ट हुए जिसमें 0 07 फीसद लोग पाए गए कोरोना

को टीके की पहली डोज जबकि 9 281 लोगों को

टीके की दूसरी डोज दी गई। अब तक दिल्ली शहर में कुल 93, 67, 800 लोगों को टीके लगाए ज चुकी है। इसमें से 71, 42, 106 लोगों को टीके की

**टीकाकरण :** दिन भर में कुल 25, 985 लोगों को टीके लगाए गए। इसमें से 16, 704 लोगों

पहली डोज जबिक 22, 25, 694 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड

#### ओ-जोन की 150 कॉलोनियों को लाया जाए एफ जोन में : बिधूड़ी नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह

ना तर्पणा (एसएमच्या) (उत्पात्रकारचान में भा आयर्थ राज्या राज्या विश्वहीं ने मास्टर प्लान 2041 के सम्बर्ध में 150 कॉलीनियों को ओ-जीन से हटाकर एफ-जीन में लाने की मांग की है। उन्होंने डीडीए के उपाध्यक्ष अनुराग जैन से मुलाकात कर इस मुद्दे के साथ कर्ड और मुद्दें को भी उठाया है। उन्होंने कहा कि इन कॉलीनियों को ओ-जीन से हटाकर एफ-

कहा कि इन फालानिया का आन्जान से हटाकर एक-जोन में लाया जाए ताकि यहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। इन कॉलोनियों को नियमित किया जा सके और वहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इन कॉलोनियों का ले आउट प्लान भी ओ-जोन से हटाने पर ही वन सकेगा और लोग नक्शा पास कराकर मकान

भी बना सकेंगे। विश्रृड़ी ने डीडीए उपाध्यक्ष के समक्ष दिल्ली के कई और मामले भी उदाए। उन्होंने कहा कि अनिधकृत कॉलोनियों का ले आउट प्लान शीष्ट बनाया जाए ताकि लोग नक्शा पास कराकर अपना मकान नियमानुसार बनवा सकें। इससे अवैध निर्माण रुकेगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी इसके अलावा 'जहां झुगी, वहां मकान' योजना में भी तेजी लाने का आग्रा किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खोखा-पटरी वालों को स्टाल के लिए जमी-नव्य कराई जाए ताकि वे ठीक से कारोबार कर सकें। इसके अलाव पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने का मुद्दा भी उठाया गया।

#### अनूपशहर आसवनी इकाई को.ओ. चीनी मिल, जहांगीराबाद (बुलन्दशहर) पिन-202391 कमांक : जीएम/एडीय/2021-22/214/**C**

Email: distilleryunit@gmail.com

website:www.upsug arfed.org arfed.org etender.up.nic.in

क्र. सं.	कार्य का विवरण	ई-निविदा प्रारम्भ होने की तिथि व समय	ई-निविदा की अन्तिम तिथि व समय	टेकनिकल/ फाइनेंनसियल बिड खालने की तिथि व समय	धरोहर धनराशि
1	आसवनी के एनालाइजर कालम का एक शैल, वाश केचर, वेपर पाइप लाइन, बियर हीटर/ कन्डेन्सर टयूब तथा एनालाइजर कालम का केवल एक प्लेट डाउन पाइप सहित आपूर्ति का कार्य।	20.07.2021/ 6.55 पी.एम.	27.07.2021/ 6.55 पी.एम.	28.07.2021/ 11.00 ए.एम	10000.00

निविदा से संबंधित जानकारी, नियम व शर्त आदि वेबसाइट etender.up.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा

प्रधान प्रबंधक